



UNIVERSITY OF  
OXFORD



# परिवारों की गाड़: ऑक्सफ़ोर्ड आवेदक की सहायता करना



# विषय-वस्तु

स्वागत	1
यूनिवर्सिटी क्यों जाएँ?	2
ऑक्सफोर्ड क्यों आएँ?	3
क्या ऑक्सफोर्ड मविष्य के करियर में सहायता करता है?	4
सब कुछ का भुगतान कैसे होता है?	5
क्या ऑक्सफोर्ड खरचों के बहन में सहायता करता है?	6
वे कोर्स कैसे चुनते हैं?	8
वहाँ कैसी पढ़ाई होती है?	10
वहाँ अन्य कौन-सी अध्ययन सहायता मिलती है?	11
वे कहाँ रहते हैं?	12
कौन उनका ध्यान रखता है?	14
क्या मौज-मस्ती और दोस्तों के लिए समय मिलता है?	15
वहाँ कौन अध्ययन करता है?	16
वे कैसे आवेदन करें?	18
हम और क्या पता लगा सकते हैं?	19
हम उनकी दलिचस्पी कैसे बनाए रख सकते हैं?	20



और प्रश्न हैं?

यदि आप या आपका बच्चा/  
आपकी बच्ची यूनिवर्सिटी में पढ़ने  
के बारे में और जानना चाहता/  
चाहती हो, तो कृपया  
[ox.ac.uk/ask](http://ox.ac.uk/ask) पर हमेल करके  
संपर्क करें।

@studyatoxford  
 @OxOutreach

# स्वागत

अंडरग्रेजुएट एडमिशन और आउटरीच की डायरेक्टर होने के साथ-साथ, मैं दो अचूटे बेटों की माँ भी हूँ। सकूल के बाद काया करना है जब इस बारे में नरिण्य लेने की बात हो, तो ऐसा लगता है कि आज के युवाओं के पास पूर्ह के मुकाबले अधिक वकिलप हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि नरिण्य लेना अधिक आसान होता है। परविरों

के लिए यह जाना मुश्किल हो सकता है कि मिटद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो, वरिष्ठकर जब वे स्वयं यूनिवर्सिटी नहीं गए हों।

मेरा दृष्टकिण हमेशा से यह सुनिश्चित करना है कि मैं यथासंभव सूचति रहूँ – कम से कम तब मेरे पास सुने जाने का आधा अवसर तो होगा। हमने यह गाइड आपको ऑक्सफोर्ड में अध्ययन करने के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए लिखा है। लेकिन यह इस बारे में भी है कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी जाना जीवन में बदलाव ला सकता है और प्रतिभिवान विद्यारथियों को आगे असाधारण और खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस बारे में सलाह है कि आप जसि बच्चे/बच्ची की सहायता कर रहे हैं कि उन्हें वह अध्ययन के लिए अपनी पसंद का विषय का चुन सकता/सकती है, और इस बारे में भी मार्गदरशन है कि कैसे यथासंभव मजबूत आवेदन करें।

हम आपको बताना चाहते हैं कि ऑक्सफोर्ड में विद्यारथी सुरक्षित हाथों में होते हैं, इसलिए हमने हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी सहायता, उनके यहाँ रहने के दौरान, और यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद, दोनों का विवरण दिया है। हम यह भी समझते हैं कि आपको सभी खरचों के बहन के बारे में सपष्ट होने की ज़रूरत है। मैं आपको आशंकस्त कर सकती हूँ कि यूके के विद्यारथियों के लिए हमारी आर्थिक सहायता यूनिवर्सिटीयों द्वारा दी जा रही सबसे उदार सहायताओं में से एक है। और नसिंदेह, आपके लिए भी सहायता है: यदि आपके पास कोई प्रश्न है, तो कृपया संपरक करें – सहायता करके हमें वाकई खुशी होगी। वैकल्पिक रूप से, आप हमारी वेबसाइट [ox.ac.uk/study](http://ox.ac.uk/study) पर कभी भी जा सकते हैं।

हम सभी अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ चीज़ चाहते हैं लेकिन यह जाना मुश्किल हो सकता है कि सहायता कैसे करें, इसलिए मैं आशा करती हूँ कि यह गाइड आपके लिए चीजें आसान बना देगी।

**डॉ. समीना खान**  
अंडरग्रेजुएट एडमिशन और आउटरीच डायरेक्टर



“

वहाँ बहुत ज़्यादा जानकारी है, और उनमें काम की जानकारी खोजने के लिए आपके बच्चे को कुछ अभियाकीय जाट की ज़रूरत पड़ सकती है। बस यह सुनिश्चित करें कि वे तथ्य खोज पाएं, कि ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट औसत-से-अधिक तेज स्टूडेंट का एक सामान्य समूह है, जो ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं, टीवी देखते-देखते समय बरबाद करते हैं, अपने काम को अंतिम समय तक टालते हैं और उनके दोस्त हर प्रकार के सकल, सामाजिक पृष्ठभूमि और कृषेत्र से होते हैं – बल्कि दूसरी जगह के स्टूडेंट की ही तरह!

एलसिन

“

मैं अब ऑक्सफोर्ड को ऐसे दूर, विद्याली सपने की तरह नहीं देखती हूँ जो यास विद्याधिकारप्राप्त प्रतिभिवाली लोगों के लिए है, बल्कि जो अनुभव करती हूँ वही मानती हूँ। ऐसी जगह जो मुझे अपना लगती है।  
**फीनिक्स**

“

# यूनिवर्सिटी क्यों जाएँ? जीवन बदलने वाले अनुभव और अवसर



ऑक्सफोर्ड में उनके आखरि समय में, हम आशा करते हैं कि हमारे स्टूडेंट वे कौशल वकिसति कर चुके होंगे जो उनके जीवन में उनकी पसंद का काम करने के लिए जरूरी होंगे। हम चाहते हैं कि वे अपने भविष्य के बारे में आत्मविश्वास और उत्साह महसूस करें, और हम मानते हैं कि यूनिवर्सिटी में उन्हें मिलने वाले अवसर उनकी सफलता और खुशी में बड़ी मूलकी नभी सकते हैं।

फिर भी, हम समझते हैं कि यूनिवर्सिटी जाने का नरिण्य लेना एक बड़ा नरिण्य होता है, और यह बात अपने नकिट के लोगों के साथ साझा करने से इसमें मदद मिल सकती है। हमारे स्टूडेंट हमें अक्सर बताते हैं कि पिरागिर और दोस्तों के साथ चर्चा करना कितना मायने रखता है। इसलिए, भले ही आप खुद यूनिवर्सिटी गए हों या नहीं, कृपया हम पर विश्वास करें जब हम कहते हैं कि आप वाकई मदद कर सकते हैं!

शुरूआत के लिए, यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि क्यों यूनिवर्सिटी आपके बच्चे के लिए एक शानदार वकिलप हो सकता है:

## भविष्य की योजना बनाना

स्टूडेंट अपने बारे में, और इस बारे और जान सकते हैं कि वे अपनी जटिगी में क्या चाहते हैं। उनके पास अपने भविष्य की योजना अच्छी तरह से बनाने का अवसर होता है।

## एक अच्छी नौकरी पाना

यूनिवर्सिटी ऐसे कौशल वकिसति करने का अवसर प्रदान करता है जो बाद में अच्छी वेतन वाली नौकरी खोजने में मदद कर सकते हैं। गरेजुएट अपने करियर के दौरान बनियां डिग्री वाले लोगों की तुलना में अधिक कमाते हैं।

## लोगों से मिलना

स्टूडेंट्स के पास सभी पृष्ठभूमियों और पूरी दुनिया के लोगों से मिलने का अवसर होता है। यूनिवर्सिटी में बनी दोस्ती और संबंध पूरे जीवन बने रहते हैं।

## शक्तिष्ठ से प्यार करना

यदि कोई शक्तिष्ठ के बारे में उत्सुक है और उसे चीजों के बारे में प्रश्न पूछना अच्छा लगता है, तो इसकी संभावना है कि उन्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने में आनंद आएगा। यह उन्हें अपनी उचिकी चीजों के बारे में पता लगाने देगा और उनकी समझ वकिसति करने देगा।



मैं अपने पसंदीदा विषय को उस विषय के वैश्वकिं विशेषज्ञों से पढ़ने के विचार से बहुत ज्यादा उत्साहित थी।  
**ललिती**



# ऑक्सफोर्ड क्यों आएँ?

## दुनिया की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ में से एक है

उन्हें ऑक्सफोर्ड के बारे में क्यों सोचना चाहहि? वैसे, अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे/रही हैं, तो क्यों न सबसे बढ़िया में जाएँ? कुछ अच्छे कारण हैं जनिकी वजह से हमें पछिले चार वर्षों से वरिष्ठ की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी\* चुना गया है।

\*द वरलड रैंकिंग, 2019-20

### दुनिया बदलना

ऑक्सफोर्ड में आप दुनिया का मव्विय बदल रहे अभूतपूर्व शोध के केंद्र में रहे लोगों से सीख सकते हैं। [ox.ac.uk/research](http://ox.ac.uk/research)

### वरिष्ठज्ञ करियर सलाह

हमारी करियर सेवा हमारे सभी स्टूडेंट को नौकरी के अवसरों और उनकी आगे की पढ़ाई के बारे में मुफ़्त, आजीवन और वरिष्ठज्ञ सलाह की पेशकश करती है। [ox.ac.uk/careers](http://ox.ac.uk/careers)



### शक्तिकालीन संसाधनों के लिए बलिकुल सही जगह

100 से अधिक लाइब्रेरीज़, चार वरिष्ठस्तरीय म्यूजियम और लगभग 1,500 लैबोरटरीज़ के साथ, हमारे स्टूडेंट के लिए दुनिया की कुछ सबसे बढ़िया शक्तिकालीन संसाधनों उनके दहलीज पर होती हैं।

[ox.ac.uk/learningresources](http://ox.ac.uk/learningresources)

### उत्तम दर्जे का शक्तिकालीन संसाधन

ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट वरिष्ठज्ञों का व्यक्तिगत ध्यान पाते हैं, जिसकी सुविधा अधिकितर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलती है।

[ox.ac.uk/tutorials](http://ox.ac.uk/tutorials)

### खर्चे साझा करना

ऑक्सफोर्ड सबसे जरूरतमंद स्टूडेंट को उदार आरथिक सहायता प्रदान करता है। चार में से एक यूके स्टूडेंट को वरतमान में नियाहा खरचों के लिए छात्रवृत्ति (जिसे लौटाने की जरूरत नहीं है) मिलती है, ताकि उन्हें धन की चिंता न करना पड़े।

[ox.ac.uk/funding](http://ox.ac.uk/funding)

### सीमति समुदाय

ऑक्सफोर्ड में 30 से अधिक कॉलेज हैं, जिसका अर्थ है कि स्टूडेंट्स को दोनों बड़े और वरिष्ठस्तरीय यूनिवर्सिटी तथा छाटा, दोस्ताना समुदाय का लाभ मिलता है।

[ox.ac.uk/ugcolls](http://ox.ac.uk/ugcolls)

### जरूरत पड़ने पर सहायता

हम सभी को कभी-कभार सहायता की जरूरत पड़ती है, और ऑक्सफोर्ड में बहुत सारे लोग हैं जो जरूरत पड़ने पर सहायता करते हैं।

[ox.ac.uk/students/shw](http://ox.ac.uk/students/shw)

### अवसरों की दुनिया

यहाँ स्टूडेंट कहीं मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास दूसरी चौंकें करने का भी समय होता है। यहाँ मस्ती करने, मैल-मलिल करने और उपयोगी कौशल वकिसति करने के सैकड़ों अवसर हैं।

[ox.ac.uk/opportunities](http://ox.ac.uk/opportunities)

### मस्ती और स्टूडेंट केंद्रति शहर

ऑक्सफोर्ड न केवल खूबसूरत है, बल्कि यह स्टूडेंट्स से भरा एक युवा शहर है। यह रहने के लिए शानदार जगह है।

[ox.ac.uk/livingin](http://ox.ac.uk/livingin)

# क्या ऑक्सफोर्ड भविष्य के करियर में सहायता करता है?

## सफलता और एक अच्छी नौकरी की ओर

ऑक्सफोर्ड डिग्री एक सफल भविष्य की ओर शानदार शुरूआत प्रदान करती है। आपका बच्चा/आपकी बच्ची जो भी विषय पढ़े, उसके पास व्यापक अवसर उपलब्ध होते हैं। हमारी करियर सेवा व्यापक समरथन प्रदान करती है – मुफ़्त और आजीवन – ताकि आपका बच्चा/आपकी बच्ची अपने भविष्य के बारे में आत्मविश्वासी महसूस करे।

### क्या उनकी डिग्री उन्हें अच्छी नौकरी पाने में मदद करेगी?

ऑक्सफोर्ड में, स्टूडेंट्स के पास अपने कौशल वकिसति करने का बहुत अवसर होता है जो उन्हें नौकरी खोजने और अपनी नौकरी में सफल होने में सहायता करता है। अध्ययन के साथ-साथ दूसरी जमिमेदारियाँ भी नभिना अच्छे समय प्रबंधन और कार्यकुशलता का शक्तिशाली प्रमाण है। स्टूडेंट क्लब और गतिविधियाँ संवाद करना, बजट बनाना और टीम वर्क जैसे कौशल भी प्रदान कर सकती हैं।

### कार्य अनुभव के बारे में क्या?

ऑक्सफोर्ड के छोटे टर्स के कारण स्टूडेंट्स के पास इंटर्नशिप पूरा करने या छुट्टियों के दौरान कार्य अनुभव पाने के लिए काफी समय होता है, और इन अवसरों को खोजने के कई तरीके हैं। हमारे स्टूडेंट्स की सैकड़ों इंटर्नशिप तक पहुँच होती है, जिसमें यूके और बाहर के सैकड़ों समर इंटर्नशिप, साथ ही साथ यूके के भीतर सप्ताह भर वाले इंटर्नशिप शामिल हैं। कसी खास कार्य क्षेत्र के बारे में समझ हासिल करने के शानदार अवसर हैं।

### और कौन-से अन्य करियर सहायता उपलब्ध हैं?

आपके बच्चे के करियर लक्ष्यों को समझने से लेकर उन्हें उनकी महात्वाकांक्षाएँ हासिल करने में मदद करने तक, हमारी करियर सेवा मार्गदरशन प्रदान कर सकती है। वे:

- व्यक्तिगत सलाह देते हैं
- उन कौशलों को वकिसति करने का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जिनकी अपेक्षा नियोक्ता कर्मचारियों में करते हैं
- मजबूत आवेदन करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं
- संभावित नियोक्ताओं से मिलाने के लिए करियर मेलाओं का आयोजन करते हैं
- लगभग 12,000 नौकरी रक्तियाँ विज्ञापन करते हैं
- आगे के अध्ययन के बारे में सलाह देते हैं

### उनके ऑक्सफोर्ड छोड़ने के बाद क्या?

अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ के विपरीत, ऑक्सफोर्ड के सभी पूर्व स्टूडेंट्स को ऑक्सफोर्ड करियर सेवा तक आजीवन पहुँच हासिल होती है। इसमें प्रामाण्य सत्र और हजारों नौकरी विज्ञापन तक पहुँच शामिल है। पूरी दुनिया में काम कर रहे 300,000 से अधिक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट के साथ, आपका बच्चा/आपकी बच्ची दूसरे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट की सहायता से लाभ उठा सकता/सकती है, चाहे वह कुछ भी करने का निर्णय ले।

1177

मैं आपी स्टूडेंट  
मैगेज़िन की मैनेजरि  
एटिर हूँ बेघर लोगों के  
लिए धन इकट्ठा करती हूँ  
एक मानवाधिकार फोरम चलाती हूँ  
और अफ्रीकी और कैरेबियाई सोसायटी  
के लिए कार्यकर्मों की योजना  
बनाती हूँ – चीज़ें जो मैंने कभी  
सोची भी नहीं थी कमि  
यूनिवर्सिटी में करूँगी।  
केलाइना

# सब कुछ का भुगतान कैसे होता है?

## बहुत कम चीजों का भुगतान अग्रमि में किया जाता है

ऑक्सफ़ोर्ड इस बारे में प्रतिबिद्ध है कि जिन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ अध्ययन का मौका दिया जाता है वे खरचों का वहन कर सकें। बहुत कम खरचों का भुगतान अग्रमि में किया जाता है, और यूके के स्टूडेंट्स के लिए सरकार, यूनिविर्सिटी और स्टूडेंट के कॉलेज की ओर से बहुत सारी आरथकि सहायता उपलब्ध है।

### इसमें कितना खरच आएगा?

स्टूडेंट्स को दो खरचों का भुगतान करना पड़ता है।

#### कोर्स फीस:

यह भुगतान कोर्स की पढ़ाई और सुवधाओं के लिए किया जाता है।

- ऑक्सफ़ोर्ड डिग्री के लिए होने वाला खरच अधिकितर यूके यूनिविर्सिटीज़ के खरचों के समान ही होता है।
- असल कोर्स फीस इस पर नरिमर करती है कि आपका बच्चा/आपकी बच्ची यूके स्टूडेंट है या अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट।
- इस समय, एक यूके स्टूडेंट की कोर्स फीस £9,250 प्रतिवर्ष है, लेकिन 2021-22 की फीस शरद ऋतु तक पता नहीं चलेगी। अधिक जानकारी के लिए, यहाँ जाएँ: [ox.ac.uk/ugfees](http://ox.ac.uk/ugfees).

#### नरिवाह खरच:

इसमें भोजन, करिया और सामाजिक गतिविधियाँ शामिल हैं।

- ये खरचे स्टूडेंट की जीवनशैली के आधार पर भनित हो सकते हैं हेलेकिन 2020 में ऑक्सफ़ोर्ड के एक स्टूडेंट के लिए कुल अनुमानित नरिवाह खरच, करिया और खाना-पीना समेत, प्रतिमाह £1,135 और £1,650 के बीच है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ जाएँ:

[ox.ac.uk/uglivingcosts](http://ox.ac.uk/uglivingcosts).

#### ईयू स्टूडेंट्स:

2021-22 में कार्स शुरू करने वाले ईयू स्टूडेंट्स के लिए फीस और सहायता की व्यवस्था अज्ञात है। नवीनतम जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें: [ox.ac.uk/students/oxford-and-the-eu](http://ox.ac.uk/students/oxford-and-the-eu)

### इसका भुगतान कैसे होता है?

सभी यूके स्टूडेंट दो अलग-अलग सरकारी लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और पास सकते हैं:

#### ट्यूशन के लिए लोन:

- यह आपके बच्चे की कुल कोर्स फीस कवर करता है और ट्रम के अनुसार सीधे यूनिविर्सिटी को दिया जाता है।

#### रखरखाव लोन:

- यह नरिवाह खरचों के लिए होता है और प्रतिवर्ष ट्रम की शुरूआत में आपके बच्चे को दिया जाता है।
- आपके बच्चे को मिलने वाली राशि उसकी घरेलु आय पर नरिमर करेगी। अधिक जानकारी के लिए, यहाँ जाएँ: [ox.ac.uk/funding](http://ox.ac.uk/funding).

### लोन को कैसे चुकाया जाता है?

- स्टूडेंट इन लोन को लौटाने की शुरूआत नौकरी मिलने के बाद और प्रतिवर्ष £25,725 (2019/20 टैक्स वर्ष) से जयादा कमाने पर करते हैं।
- उदाहरण के लिए, 2019/20 में £30,000 कमाने वाला ग्रेजुएट प्रतिमाह लगभग £32 भुगतान करने की अपेक्षा कर सकता/सकती है।
- भुगतान न हुए लोन 30 साल के बाद रद्द कर दाइ जाते हैं।

वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थर्न आयरलैंड के नमिन आय वाले परविरों के स्टूडेंट्स वर्तमान में गैर-प्रतिदिय सरकारी रखरखाव अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।



# क्या ऑक्सफोर्ड खर्चों के वहन में सहायता करता है?

## उदार वित्त-पोषण सहायता उपलब्ध है

हम सचमुच नहीं चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट बलिंग का भुगतान करने के बारे में चतिं करें, इसलिए ऑक्सफोर्ड यूके यूनिवर्सिटीज़ के सबसे उदार वित्त सहायता पैकेजों में से एक प्रदान करता है। वर्तमान में चार में से लगभग एक यूके स्टूडेंट को गैर-प्रतिदिय छात्रवृत्ति मिलती है।

### कौन-सी वित्ती पोषण सहायता उपलब्ध है?

यूके के नमिन आय वाले परविारों के स्टूडेंट्स के लिए अपने खर्चों का वहन करने के वास्ते गैर-प्रतिदिय वित्ती पोषण उपलब्ध है।

#### कैरैक्स्टार्ट स्कॉलरशिप

कैरैक्स्टार्ट स्कॉलरशिप अध्ययन और नरिवाह खर्चों के लिए प्रतिवर्ष £5,000 तक गैर-प्रतिदिय छात्रवृत्ति प्रदान करता है। यह रोजगार कौशल विकासित करने के लिए निधिबिद्ध इंटरनशिप, साथ ही साथ स्वयंसेवा के अवसरों तक भी पहुंच प्रदान करता है। ऑक्सफोर्ड का कैरैक्स्टार्ट स्कॉलरशिप £27,500 या कम घरेलु आय वाले, और अपनी पहली डिग्री के लिए अध्ययन करने वाले सभी यूके स्टूडेंट के लिए उपलब्ध है।

#### ऑक्सफोर्ड छात्रवृत्ति

अपनी पहली डिग्री के लिए अध्ययन कर रहे यूके स्टूडेंट्स जनिकी घरेलु आय £42,875 प्रतिवर्ष से कम हो (जनिहें कैरैक्स्टार्ट स्कॉलरशिप नहीं मिली हो), वे खर्चों में सहायता के लिए वार्षिक गैर-प्रतिदिय छात्रवृत्ति के पात्र होते हैं। इस छात्रवृत्ति की राशि घरेलु आय पर निभर होगी लेकिन प्रतिवर्ष £3,200 तक हो सकती है।

#### ऑक्सफोर्ड-आरलेन हैमलिटन और इयरलनि बट्टलर समिस स्कॉलरशिप

अश्वेत अफरिकी या अश्वेत कैरेबियाई मूल के सुविधावंति पृष्ठभूमि वाले यूके नविसी इस गैर-प्रतिदिय स्कॉलरशिप के लिए, जो प्रतिवर्ष एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की फीस और नरिवाह खर्चों को कवर करता है, तीन सालों तक आवेदन कर सकते हैं।

#### देखभाल अनुभवी या वरिक्त स्टूडेंट

यदि आपके बच्चे/आपकी बच्ची तीन से अधिक महीने देखभाल में रहा/रही है, या अपने परविार से वरिक्त है, तो हम उसे £3,000 तक का वार्षिक गैर-प्रतिदिय छात्रवृत्ति दें सकते हैं। यदि उसे कैरैक्स्टार्ट स्कॉलरशिप भी मिल रहा है, तो भी वह हर वर्ष अधिकतम £7,200 छात्रवृत्ति का पात्र हो सकता/सकती है।

#### ऑक्सफोर्ड यात्रा परपूर्क

यदि आपके बच्चे को कैरैक्स्टार्ट स्कॉलरशिप या ऑक्सफोर्ड छात्रवृत्ति मिल रहा है तथा वह ऑक्सफोर्ड से 80 और 150 मील के बीच रह रहा हो, तो उसे £200 का गैर-प्रतिदिय वार्षिक ऑक्सफोर्ड यात्रा परपूरक दिया जाएगा। यदि वह ऑक्सफोर्ड से 150 मील से अधिक दूर रहता है, तो उसे £500 मिलिए।

#### स्टूडेंट सहायता फँड

यह फँड उन यूके स्टूडेंट्स की सहायता करता है जनिहें कई परसिथितियों में आरथिक मदद की जरूरत पड़ सकती है। यदि आपके बच्चे/आपकी बच्ची को कोर्स शुरू करने के बाद आय में कमी नजर आती है या उसे अतरिक्त अपवादातमक खर्चा पूरा करने की जरूरत आ पड़े, तो वह गैर-प्रतिदिय अनुपूरक वित्ती पोषण के लिए आवेदन कर सकता/सकती है।



“ ”

कॉलेज में  
भोजन करना वार्कइं  
सस्ता है, और आपको  
शायद ही कभी कतिबों  
खरीदनी पड़ती है क्योंकि  
ऑक्सफोर्ड में लगभग  
सबकुछ है।  
मैव



## कॉलेज कसि प्रकार खर्चों को कम रखते हैं?

कई कॉलेज शोध, उपकरण तथा अध्ययन संबंधित यातरा जैसी चीजों के लिए अतिरिक्त फँडिंग, साथ ही साथ काफी या अनपेक्षित आरथिक सहायता की जरूरत वाले स्टूडेंट के लिए कठनिई फँडिंग की पेशकश करते हैं।

## ऑक्सफोर्ड उनके धन को कैसे लंबे समय तक चलाता है?

- ऑक्सफोर्ड के इंदगरिद मुद्राति 1 करोड़ 30 लाख आइटमों को रखने वाले 100 से अधिक लाइब्रेरीज़ के साथ, स्टूडेंट्स को कतिबों और अध्ययन सामग्री सामान्यतः बैगर खरीदे मिल सकती हैं।
- ऑक्सफोर्ड के कॉलेज सबसड़ी वाले भोजन और मनोरंजन प्रदान करते हैं, इसलिए खाने-पीने और सक्रायि सामाजिक जीवन जीने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा खरच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
- यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की खुद की खेलकूद सुविधाएँ होती हैं जो सामान्यतः स्टूडेंट्स के लिए मुफ़्त या सबसड़ी वाली होती हैं।
- आपके बच्चे को उसके कोर्स के दौरान कम से कम दो साल के लिए कॉलेज में कमरा दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि उसे केवल ट्रैम अवधि के दौरान, जो कि सामान्यतः केवल आठ सप्ताह की होती है, करिया देना पड़ता है।

“ ”

मैं एक सगिल पैरेंट  
परविर से आती हूँ और  
मेरी माँ को एक लंबी बीमारी है,  
जिसके फलस्वरूप मैंने लगभग पाँच  
वरष जब तब उनको देखभाल की। जब  
मैं ऑक्सफोर्ड आने की तैयारी कर रही थी  
तो पैसे का तनाव जरूरी चीजों में सबसे आखिरि  
था... कैरैक्स्टार्ट की पेशकश ने मेरे कंधों से  
काफी बोझ हटा दिया। बानि कोई शक,  
कैरैक्स्टार्ट स्कॉलरशिप मुझे मिलने  
वाली अब तक के सबसे महत्वपूर्ण  
अवसरों में से एक थी।  
एली

“ ”

छात्रवृत्ति सहायता  
महत्वपूर्ण है क्योंकि  
यह अधिकार नविस खर्चों  
को कवर करती है। मुझे अपनी  
आरथिक स्थिति के बारे में चिता करने  
की ज़रूरत नहीं है, और मैं अपने  
अध्ययन पर ध्यान केंद्रित  
कर सकती हूँ।  
लुकस



# वे कोर्स कैसे चुनते हैं? वो करें जो पसंद हो

कुछ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में स्कूल का अपना पसंदीदा विषय पढ़ना चाहते हैं, अन्य स्टूडेंट कुछ नया सीखना चाहते हैं। कोर्स का चयन करना सबसे महतवपूर्ण नियम है जो स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन करते समय लेना पड़ता है। हमें पता है कि नियम लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वह यह कि आपका बच्चा/आपकी बच्ची वह कोर्स चुनता/चुनती है जिसके बारे में वह गार्ड और जानना चाहता/चाहती है और जिसका अध्ययन करने में उसे आनंद आएगा। डिग्री कोर्स जो भी हो, हमारे स्टूडेंट्स के पास यहाँ से नकिलने पर उत्साही करयिरों का वकिलप होता है।



अधिकांश नौकरियाँ  
यूनिवर्सिटी में पढ़े  
विषय की मांग नहीं करती  
हैं; सभी डिग्री कोर्स आपको  
व्यापक मूल्यवान रोजगार  
कौशल से लैस करते हैं।  
**जीनाथन ब्लैक,  
करियर सेवा**

## वे सही कोर्स कैसे चुन सकते हैं?

अध्ययन के लिए सही कोर्स का चयन करने के कई तरीके हैं।

### पसंदीदा विषय

कुछ लोगों का स्कूल से एक पसंदीदा विषय होता है जिसे वे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। कोर्स में क्या शामिल है इस पर नज़र डालना महतवपूर्ण है क्योंकि कुछ विषय स्कूल के मुकाबले यूनिवर्सिटी में बहुत भिन्न हो सकते हैं।

### कई विषयों का संयोजन

ऑक्सफ़ोर्ड 'संयुक्त' कोर्सों की एक रेंज ऑफ़र करता है, जो कटिक ही साथ अध्ययन किए जाने वाले अलग-अलग विषय होते हैं। इसका अर्थ है कि स्टूडेंट्स अपनी उच्चियाले अलग-अलग विषयों का अध्ययन कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि कैसे वे एक साथ काम कर सकते हैं।

### कुछ नया

ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जो सामान्यतः स्कूल में उपलब्ध नहीं होते हैं, उदाहरण के लिए पुरातत्व विज्ञान और मानव-शास्त्र, जैवरसायन, और मानव विज्ञान। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बलिकुल सही होते हैं जो कुछ नया विद्यार्थी सीखना चाहते हैं।



हमारा एक कोर्स चुनना वीडियो देखें:  
[ox.ac.uk/whichcourse](http://ox.ac.uk/whichcourse)



## क्या सभी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स एक समान होते हैं?

वर्भिन्न यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स बहुत अलग हो सकते हैं, बावजूद इसके कि उनका एक ही नाम हो। आपके बच्चे के लाएं कोर्स में शामिल विषयों का विवरण देखना एक अच्छा विचार है ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि यह वे चीजें शामिल हैं जिनमें उनकी दलिचस्पी है।

## ऑक्सफोर्ड में कोर्स कैसे हैं?

ऑक्सफोर्ड में व्यापक प्रकार के कोर्स हैं, लेकिन उनमें कुछ चीजें एक समान हैं।

हमारे सभी कोर्स कम से कम तीन साल चलते हैं, लेकिन कुछ में चार या पाँच साल लग सकते हैं। यह आमतौर पर तब होता है जब उनमें एक साल का विशिरी या वसिताराति प्रोजेक्ट शामिल होता है।

- हमारे सभी कोर्स में जरीरी विषय शामिल होते हैं, साथ ही वर्भिन्न विकल्प भी होते हैं जिन्हें स्टूडेंट अपनी दलिचस्पी के अनुसार चुन सकते हैं।

## उनके लाएं कौन-से ग्रेड की जरूरत हैं?

स्टूडेंट्स को A-लेवल (या समकक्ष) में परापृष्ठ ग्रेड उनके लाएं उपलब्ध यूनिवर्सिटी कोर्सेस में बड़ा फ्रैक्ला सकता है। कुछ कोर्सेस का आवेदन करने योग्य होने के लाएं स्टूडेंट्स को खास विषयों का अध्ययन भी किया होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड के लाएं मजबूत आवेदन करने हेतु स्टूडेंट को तीन A-लेवल (या समकक्ष) पाना होगा। आवश्यक ग्रेड्स आवेदन करने जाने वाले कोर्स के आधार पर भर्तिन हो सकते हैं, और कई सफल उम्मीदवारों को इनसे अधिक ग्रेड मिलता है, लेकिन आमतौर पर यह इनके आसपास होता है:

- A-लेवल: A\*A\*A-AAA.
- यदि आपके बच्चे को कोई साइंस A-लेवल मिला है, तो उससे परैक्टिकल परीक्षा भी देने और पास करने की उम्मीद को जाती है।



# वहाँ कैसी पढ़ाई होती है? वरिष्ठज्ञ और व्यक्तिगत

ऑक्सफ़ोर्ड की पढ़ाई अधिकितर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से अलग है। स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रतिशत कितने के साथ-साथ, प्रत्येक स्टूडेंट को उनके ट्यूटर्स से व्यक्तिगत ध्यान पाने का भी शानदार सौदा मिलता है।

## ऑक्सफ़ोर्ड में स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाता है?

ऑक्सफ़ोर्ड में ट्रम अवधि के दौरान स्टूडेंट्स नियमित ट्यूटोरियल शक्षिष्ण पाते हैं। ट्यूटोरियल कसी कोर्स विषय पर होने वाली बातचीत होती है, आमतौर पर ट्यूटर और दो या तीन स्टूडेंट्स के बीच, और जो लगभग एक घंटे चलती है। इस दौरान, वे इस बारे बात करेंगे कि स्टूडेंट्स उस सप्ताह क्या सीख रहे हैं और उन्हें किए गए काम पर फ़ीडबैक प्रदान किया जाएगा। इस आधार पर किवे क्या कोर्स कर रहे हैं, यह कसी लेख या प्रॉब्लम शीट पर हो सकता है।

## क्या कोई दूसरे प्रकार की पढ़ाई भी है?

ट्यूटोरियल्स के साथ-साथ, स्टूडेंट्स लेक्चरस में भी उपस्थिति रहते हैं, जहाँ ट्यूटर कसी विषय पर बड़े समूह के साथ बात करता है। कसी स्टूडेंट्स समूह के साथ साप्ताहकि कक्षाएँ भी ली जा सकती हैं। कुछ कोर्सेस में, खासकर साइंस वालों में, लैबोरेट्री में प्रैक्टिकल सत्र या सामान्य फ़ील्डवर्क होते हैं।

## क्या उन्हें खुद ही पढ़ाई करनी पड़ती है?

ऑक्सफ़ोर्ड में, स्टूडेंट्स से अपेक्षा की जाती है किवे अधिकितर काम स्वयं करें। इसमें अक्सर कठिन बड़ा काम लेख लखिना या प्रश्नों की प्रॉब्लम शीट को पूरा करना शामिल है। स्टूडेंट्स इन कार्यों पर स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं, लेकिन उनके ट्यूटर्स प्रश्नों का उत्तर देने या समर्थन प्रदान करने के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। इस कार्य शीलों के कारण स्टूडेंट्स अपने समय को बहुत बढ़ाया ढंग से प्रबंधित करना सीख सकते हैं। प्रैक्टिकल कार्य वाले साइंस कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स की इतिहास या अंग्रेजी जैसे लेख आधारित विषयों पर काम करने की संभावना कम होती है।

## क्या परीक्षाएँ होती हैं?

ऑक्सफ़ोर्ड में कोर्सेस का मुख्य रूप से मूल्यांकन परीक्षा के द्वारा होता है लेकिन उनमें, विषय के आधार पर, परोजेक्ट्स या लंबे लेख भी शामिल हो सकते हैं। अधिकितर कोर्सेस में, स्टूडेंट्स अपने पहले वर्ष में परीक्षा देते हैं। उन्हें पास करना अनिवार्य है, लेकिन डिग्री के अंतमि क्लास में उनकी गणिती नहीं होती है। अगले सालों के दौरान, स्टूडेंट्स 'फ़ाइनल' परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जो आमतौर पर उनके अंतमि ट्रम में होती हैं। इन परीक्षाओं के परिणाम उनकी डिग्री का क्लास तय करते हैं।



ट्यूटोरियल  
सिस्टम  
अवशिष्टसनीय है और  
शक्षिष्ण प्रदान करना कोई  
भी दूसरा स्वरूप उसकी  
बाबरी का नहीं है।  
**आदति**

## भविष्य के लिए कौशल सीखना

ऑक्सफ़ोर्ड में जसि तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है उससे उन्हें ऐसे सशक्त कौशल हासिल होते हैं – जैसे स्वयं के लिए सोच-व्याचार करना और सपष्ट रूप से संवाद करना – जिनका उपयोग उनके बाद के जीवन और करियर में हो सकता है।

# वहाँ अन्य कौन-सी अध्ययन सहायता मिलती है? व्यक्तिगत सहायता, लाखों क्रतिबों और सीखने के लिए शांत स्थान

स्टूडेंट्स ऑक्सफोर्ड में कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वहाँ ढेर सारी सहायता उपलब्ध है, और ढेर सारी लाइब्रेरीज और अन्य सुविधाएँ इस जगह को यथासंभव सुचारू बनाती हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए भरपूर परयास करते हैं सभी स्टूडेंट्स को, भले ही उनकी परसिथियों कैसी हों, अपने कोर्स और ऑक्सफोर्ड में बतिए समय से अंदकितम लाभ मिले।

## वे सहायता के लिए कसिके पास जा सकते हैं?

ऑक्सफोर्ड में हर स्टूडेंट को एक परसनल ट्यूटर दिया जाता है, जो उनके अध्ययन पर निगरानी रखता है। वे शायद हमेशा उस व्यक्तिगत दिवारा न पढ़ाए जाएँ, लेकिन इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति है जिसके पास वे अपने प्रश्नों या चित्तिओं के साथ जा सकते हैं। यह ट्यूटर प्रत्येक स्टूडेंट को बहुत अचूती तरह से जानता है, और उन्हें ढेर सारा व्यक्तिगत ध्यान और समर्थन दे सकता है।

## क्या हो यदि उनकी कोई खास जरूरत हो?

यदि आपके बच्चे की कोई खास जरूरत है - उदाहरण के लिए, यदि वह अपनी परीक्षा में अतरिक्त समय का पात्र हो या उसे कसी खास आईटी उपकरण की जरूरत हो - तो उन्हें उनकी जरूरत पाने में उनकी मदद के लिए अक्षमता परामर्श सेवा उपलब्ध है। अतरिक्त खरचों को कवर करने में मदद के लिए, आपका बच्चा/आपकी बच्ची अक्षम विद्यारथी भतुता का पात्र हो सकता/सकती है।

[ox.ac.uk/das](http://ox.ac.uk/das)

## लाइब्रेरीज और सीखने वाली जगहों के बारे में क्या?

स्टूडेंट्स की अपने अध्ययनों में मदद के लिए शानदार सुविधाओं तक भी पहुँच है।

### ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरीज

स्टूडेंट्स की अधिकितर क्रतिबों तक, यदि सभी नहीं तो, और अध्ययन के लिए शांत स्थानों तक मुफ़्त पहुँच है। उन्हें लाइब्रेरीज़ का उपयोग करने के लिए प्रशासकिक्षित किया जाएगा, और हमारे वरिषेज़ज़ करमचारी आपके बच्चे को भारी संख्या में उपलब्ध मुद्रित और ऑनलाइन क्रतिबों और जानकारी का सर्वाधिक लाभ उठाने में मदद कर सकते हैं।

[www.bodleian.ox.ac.uk](http://www.bodleian.ox.ac.uk)

### मयूज़ियम और गैलरियाँ

ऑक्सफोर्ड में सात मयूज़ियम और संकलन हैं। ये खाली समय में छानबीन करने के लिए बहुत बढ़या है, लेकिन व्यापक कोर्सों के लिए भी स्टूडेंट्स द्वारा उपयोग करते हैं।

[www.glam.ox.ac.uk](http://www.glam.ox.ac.uk)



“ ”

रेडकलफि साइंस  
लाइब्रेरी पाठी रविरस  
मयूज़ियम के नकिट संथिति  
है, जिसके कारण यह बरेक लेने  
के लिए एक अचूती जगह है। पास  
में ही स्थिति प्रारथना कमरा इसे  
उपयुक्त अध्ययन स्थल  
बनाता है।  
अमीना

### भाषा केंद्र

ऑक्सफोर्ड में स्टूडेंट्स को वहाँ रहने के दौरान कोई भाषा सीखने के लिए उस भाषा की डिग्री के लिए अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ एक केंद्र है जो नौसखिये से लेकर वरिषेज़ज़ तक सभी के लिए क्लासेस आयोजित करता है। यहाँ भाषा सीखने से आपके बच्चे को भविष्यि में, चाहे उनके अध्ययन, उनके करियर, या यात्रा में, मदद मिल सकती है।

[www.lang.ox.ac.uk](http://www.lang.ox.ac.uk)

# स्टूडेंट्स कहाँ रहते हैं? सुरक्षित और स्वागत करने वाले कॉलेज समुदाय

उनके अध्ययनों के दौरान, स्टूडेंट्स हमारे कसी एक कॉलेज के होते हैं। ऑक्सफोर्ड के सटी सेंटर के इंदगिरिं 30 से ज़्यादा कॉलेज हैं। ये सुरक्षित और स्वागत करने वाले समुदाय हैं जहाँ आपका बच्चा/आपकी बच्ची अपना अधिकितर समय बताए सकता/सकती है, खासकर जब वे यहाँ पहली बार आते/आती हैं। कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की तरह ऑक्सफोर्ड का कोई सेंट्रल कैंपस नहीं है।



“  
दोस्ताना पारविशक परविश जो आप आपसी सदभाव वाले समुदाय में पाते हैं वह लगभग आपके अपने घर जैसा होता है और आपको घर में होने जैसा अहसास कराता है।  
जैक

2019 में, 35% सफल आवेदकों को ऐसे कॉलेज से ऑफर मिला जसि उन्होंने अपने आवेदन में नहीं चुना था।

## कॉलेज क्या है?

कॉलेज ऑक्सफोर्ड जीवन का केंद्र है, और अधिकितर स्टूडेंट महसूस करते हैं कि यह उनका घर से दूर वाला घर है। कॉलेज वह जगह जहाँ स्टूडेंट्स खा-पी सकते हैं, रह सकते हैं, दोस्तों के साथ समय बताए सकते हैं और साफ़ सफाई कर सकते हैं। कॉलेज के ट्यूटर्स स्टूडेंट्स की पढ़ाई का समरथन करते हैं, और सामान्यतः स्टूडेंट्स को उनके कॉलेज में पढ़ाते हैं। कॉलेजों में प्रवेश लोंग होते हैं जिनमें क्रमाचारी 24/7 रहते हैं। आपका बच्चा/आपकी बच्ची अपने विषय के विभिन्न और यूनिवर्सिटी व्यापी कार्यक्रमों में दूसरे कॉलेजों के बच्चों से भी मिलिंगा/मलिंगी। पूरे कॉलेजों में ढेर सारे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं और स्टूडेंट्स अक्सर दोस्तों को आमंत्रित करते रहते हैं।

## अंतर क्या है?

प्रत्येक कॉलेज की अपनी खासियत है, लेकिन उनमें जीवन लगभग एक समान है। कुछ बहुत पुराने हैं, जबकि दूसरे अधिक नए हैं। कुछ काफी बड़े हैं और दूसरे बहुत छोटे हैं। चाहे वह कसी भी कॉलेज में हो, आपके बच्चे का डिग्री कोर्स एक ही तरह से पढ़ाया जाएगा।

## क्या आप कॉलेज चुन सकते हैं?

आवेदन करते समय, आपके बच्चे या तो कोई खास कॉलेज चुन सकते हैं या एक 'खुला आवेदन' जमा कर सकते हैं, जो यह कहने के बराबर है "मुझे फ्रैक नहीं पड़ता।" हम आशा करते हैं कि लिंग कॉलेज चुनने के बारे में बहुत चिंता नहीं करेंगे – अधिक स्टूडेंट सोचते हैं कि उनका कॉलेज सबसे बढ़िया है – अध्ययन के लिए सही कोर्स का चयन काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।





यदि आपके बच्चे की कोई स्थास नविस आवश्यकताएँ हैं, तो हमें यथासंभव शीघ्रता से बता देना वाकई बहुत महत्वपूरण है। हम उन्हें सलाह के लिए अक्षमता परामर्श सेवा से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करें।  
[ox.ac.uk/das](http://ox.ac.uk/das)

## क्या आप कॉलेज में रहते हैं?

हमारे सभी स्टूडेंट्स को अपने पहले साल में कॉलेज में कमरा मिलाता है। इसकी व्यवस्था कॉलेज द्वारा की जाती है, ताकि आपके बच्चे को खुद ही इन सबसे निपिटना न पડे। सभी कॉलेज कम से कम एक और साल के लिए कमरे ऑफर करते हैं, और कुछ तो उन्हें पूरे कोर्स के लिए ऑफर करते हैं। प्राइवेट नविसों में रहना ज़्यादा महंगा हो सकता है क्योंकि अनुबंध सामान्य तौर पर पूरे साल के लिए होते हैं, जिसमें छुट्टियाँ भी शामिल होती हैं। स्टूडेंट्स जो अपने कॉलेजों में नहीं रहते हैं वे फरि भी सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट वाकई दोस्तों के साथ रहने और पहली बार स्वतंत्र रूप से जीने का आनंद लेते हैं।

## कॉलेज के कमरे कैसे होते हैं?

ये कमरे कॉलेज के मुख्य बिलिंगिंगों में हो सकते हैं या आसपास कहीं और हो सकते हैं। कमरों का आकार भनिन हो सकता है, लेकिन वे अच्छी गुणवत्ता के होते हैं और साज-सामान से युक्त होते हैं – और आपके बच्चे को कभी भी बेडरूम साझा नहीं करना पड़ेगा। कुछ कॉलेज कमरों में अपने शौचालय या बाथरूम होते हैं। अनेक स्टूडेंट्स कभी-कभी अपने कमरे में पढ़ने का निरिण्य लेते हैं और उन्हें डेसक उपलब्ध कराया जाता है। नए स्टूडेंट्स को सामान्यतः एक दूसरे के आसपास कमरे दृष्टि जाते हैं ताकि निया-नया आने पर एक दूसरे को जानना आसान हो।

देखभाल अनुभवी और वरिक्ट स्टूडेंट्स को अवकाश के दौरान खर्चों में मदद करने के लिए £3,000 तक की गैर-प्रतिविधि छात्रवृत्तिप्रदान की जाती है। उन्हें 365-दिन वाले नविस पाने में भी मदद कर्या जाता है।

## भोजन का क्या?

सभी स्टूडेंट अपने कॉलेज के डाइनिंग हॉल में सब्सिडी वाले ग्रामाग्रम भोजन कर सकते हैं। उन्हें कचिन तक भी पहुँच प्राप्त हो सकती है जहाँ वे खुद का खाना बना सकते हैं, यदि वे चाहें।

## क्या मेरा बच्चा/मेरी बच्ची घर में रह सकता/सकती हैं?

अंडरग्रेजुएट्स को सेंटरल ऑक्सफोर्ड से छह मील की दूरी के भीतर, या यदि वे पराविर के साथ रह रहे हों तो 25 मील के भीतर रहना चाहिए। इसके कुछ अपवाद हैं, लेकिन हमारा मानना है कि इससे स्टूडेंट्स को ऑक्सफोर्ड में अपने समय का अधिकितम लाभ उठाने में मदद मिलती है।



# कौन उनका ध्यान रखता है? सहायता और सलाह उपलब्ध



अधिकितर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आते समय 18 वर्ष से अधिक के होते हैं इसलिए वयस्क होते हैं। लेकिन कई अभी-अभी स्कूल से निकले होते हैं और यह उनके लिए पहली बार होता है जब वे परविर से दूर रहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदू कोई सहज महसूस करे और तेजी से व्यवस्थित हो जाए और इसमें सहायता करने के लिए दैर सारे लोग हैं।

## वहाँ कसि प्रकार की सहायता मिलती है?

ऑक्सफोर्ड अपने सभी स्टूडेंट्स की भलाई को बहुत गंभीरता से लेता है। आपके बच्चे के लिए हालात कठनि होने पर सहायता पाने के अनेक तरीके हैं। कॉलेज ट्यूटर्स आपके बच्चे की पढ़ाई में सहायता करते हैं लेकिन वे अन्य चीजों पर भी सलाह दे सकते हैं। अन्य ढेर सरे कॉलेज स्टाफ, वेलफेयर ऑफिसर समेत, स्टूडेंट्स को व्यवस्थित होने में मदद करते हैं और व्यावहारिक या स्वास्थ्य मामलों में सलाह देने के लिए आसपास होते हैं।

## कौन-सी स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध है?

अधिकितर स्टूडेंट्स की कॉलेज नर्स, साथ ही साथ सथानीय सामान्य चकितिसा सर्जरी तक पहुँच होती है। जॉन रेडक्लिफ हॉस्पिटिल में एक A&E विभाग है जो 15 मिनिट ड्राइव की दूरी पर स्थित है।

## क्या हो यदि वे अक्षम हों?

हमारी अक्षमता परामर्श सेवा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि दृष्टि या अटृष्ट अक्षमता वाले हमारे सभी स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड में अपने समय का अधिकितम लाभ उठा सकें।

[ox.ac.uk/das](http://ox.ac.uk/das)

## मेरा बच्चा/मेरी बच्ची सलाह-मशवरा के लिए कहाँ जा सकता/सकती है?

- यूनिवर्सिटी में मुफ्त काउंसलिंग सेवा है जो प्रश्नक्रिंश्टि परामर्शदाताओं के साथ एक-एक करके और समूह में सत्र आयोजित करती है, साथ ही साथ व्हर्कशॉप और स्व-सहायता सामग्रीयों की पेशकश करती है।  
[ox.ac.uk/students/shw](http://ox.ac.uk/students/shw)
- स्वयंसेवी साथी सहायक काउंसलिंग सेवा द्वारा प्रश्नक्रिंश्टि होते हैं, ताकि स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स के साथ सलाह-मशवरा कर सकें, यद्यपि ऐसा करना पसंद करो। LGBTQ+ स्टूडेंट्स और अश्वेत स्टूडेंट्स के लिए खास कार्यक्रम होते हैं।
- ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट यूनियन एक सामान्य सलाह सेवा चलाती है जहाँ स्टूडेंट्स अपनी चित्तिओं के बारे में आत्मविश्वास के साथ बात कर सकें, उदाहरण के लिए, घन प्रबल्धन या संबंधों को सुलझाने के बारे में।

[oxfordsu.org/wellbeing](http://oxfordsu.org/wellbeing)

- ऑक्सफोर्ड नाइटलाइन, जो स्टूडेंट्स के लिए और द्वारा चलती है, स्टूडेंट्स को ट्रैम अवधि के दौरान हर रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक हर विषय पर कसिंगी से बातचीत करने का अवसर देती है।

[oxfordnightline.org](http://oxfordnightline.org)

ऑक्सफोर्ड में व्यापक प्रकार के आस्था समूहों के लिए आराधना सुविधाएँ और सोसायटीज़ हैं।

मानसकि बीमारी होने के कारण मुझे हमेशा मेरी यूनिवर्सिटी सफलता, अकादमाके रूप से या अन्यथा, की समावना पर सदेह रहा। शुक्र है, मेरे ट्यूटर्स और साथी स्टूडेंट मुझे हमेशा महतवपूर्ण और समानता महसूस करते हैं, जिससे मैं फल-फूल पाई। एना



# क्या मौज-मस्ती और दोस्तों के लाए समय मलिता है?

## छान-बीन करने और मौज-मस्ती करने के सैकड़ों अवसर होते हैं

यूनिवर्सिटी जाने के बारे में एक सबसे बढ़िया चीज सामाजिक जीवन है। ऑक्सफ़ोर्ड कोई अलग नहीं है। मलिने-जुलने, चीजें करने के लाए बहुत सारे लोग होते हैं, और नई रुचियों और टैलेंट का पता लगाने के अनेक अवसर होते हैं। यद्यपि ऑक्सफ़ोर्ड के स्टूडेंट कड़ी मेहनत करते हैं, फरि भी उनके पास हँसी-मजाक, आराम और मौज-मस्ती करने के लाए काफी समय होता है।

### मेरा बच्चा/मेरी बच्ची कनि गतविधियों में शामिल हो सकता/सकती है?

ऑक्सफ़ोर्ड में स्टूडेंट्स के पास बहुत सारी गतविधियाँ होती हैं जिनमें वे अध्ययन नहीं करने के दौरान शामिल हो सकते हैं। वहाँ न केवल देर सारी मस्ती होती है और नए दोस्त बनते हैं, बल्कि भिविष्य के लाए उपयोगी कौशल वकिसति करने का भी अवसर मलिता है।

### क्लब और सोसायटीज़

म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, राजनीति या ड्रामा से लेकर धार्मकि आसथा, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक समूहों तक, यहाँ सभी के लाए कुछ न कुछ है।

### सपोर्ट

ऑक्सफ़ोर्ड में 80 सपोर्ट्स क्लब हैं और यहाँ भाग लेने के देर सारे अलग-अलग तरीके हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप नैसर्खियि हैं या अंतर्राष्ट्रीय एथलीट के रूप में प्रशक्षण पा रहे हैं।

### म्यूज़िक और ड्रामा

यहाँ बहुत सारे बैंड्स, क्वायरस और ऑर्केस्ट्रा हैं जिनमें आप शामिल हो सकते हैं, साथ ही साथ कलाकारों, नर्दिशकों और लेखकों के लाए स्टेज और स्क्रीन पर कुछ शानदार अवसर होते हैं।

### क्या वहाँ उनके जैसे लोग होगे?

हमारे स्टाफ और स्टूडेंट्स हर प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते हैं। आपके बच्चे की उसकी तरह के लोगों से मलिने की संभावना है। हमारा मानना है कि यहाँ के स्टूडेंट लाइफ के बारे में सबसे अधिक सुखद और उत्साही चीजों में से एक है। ऑक्सफ़ोर्ड में सैकड़ों समूहों, क्लब, सोसायटीज़ या अभियानों में से एक या अधिक से जुड़ना आपके बच्चे के लाए दोस्तों से मलिने और अपने लोगों को खोजने का सबसे आसान तरीका होता है।



“ ”

खुद को शुरूआत से ही कालेज के साशल लाइफ में डाल देने से और यूनिवर्सिटी व्यापी अफ़रीकी और क्रैंखलियाई सोसायटी में शामिल होकर, ऑक्सफ़ोर्ड ने मुझे दखिया कि यह सभी के लाए ही सकता है, उनकी पृष्ठभूमि पर ध्यान दाए बगरा।  
एंडी

ऑक्सफ़ोर्ड में व्यापक प्रकार की पृष्ठभूमियों, राष्ट्रीयताओं और आस्थाओं के लाए समूह, क्लब और सोसायटीज़ हैं।

### ऑक्सफ़ोर्ड रहने के लाए कैसी जगह है?

ऑक्सफ़ोर्ड यूके में शीर्ष दस सबसे सुरक्षित स्टूडेंट शहर\* में से एक है, इसलिए आपका बच्चा/आपकी बच्ची बना ज्यादा चाता करे यहाँ मौज-मस्ती कर सकता/सकती है! शहर में दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफ़ोर्ड बरूकस यूनिवर्सिटी तथा यह यूके में सबसे ज्यादा स्टूडेंट वाले शहरों में से एक है। यह रहने के लाए एक मस्त और जीवंत जगह है।

[ox.ac.uk/livingin](http://ox.ac.uk/livingin)

\*संपूर्ण यूनिवर्सिटी गाड़

# ऑक्सफोर्ड में कौन पढ़ाई करता है? वभिन्न पृष्ठभूमियों के अलग-अलग रुचियों वाले लोग

ऑक्सफोर्ड में व्यापक पृष्ठभूमियों और रुचियों वाले लगभग 12,000 अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट हैं। वे पूरी दुनिया से और हर प्रकार के स्कूल से आते हैं। वे जो चीज साझा करते हैं वह पढ़ाई के प्रतिप्रेम और अध्ययन करने का कौशल है।



“  
ऑक्सफोर्ड  
में स्टूडेंट का कोई  
प्रकार नहीं होता  
है। यह खूबसूरत तरीके  
से विधितापूरण है और  
आपको अपनी जगह  
मिल जाएगी।  
आदति”

## क्या ऑक्सफोर्ड में उनका स्वागत होगा?

हम चाहते हैं कि हर कोई यहाँ स्वागत, महत्वपूर्ण और सम्मानित महसूस करे। इस समय हम जानते हैं कि किंठु प्रतिभावन स्टूडेंट्स समझते हैं कि ऑक्सफोर्ड उनके लिए नहीं है और हम यह बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे एहसास करें कि ऑक्सफोर्ड अकादमिक प्रतिभा और प्रतिबिद्धता वाले कसी भी स्टूडेंट के लिए यथार्थवादी लक्ष्य है। यह वार्कर्ड महत्वपूरण है कि सभी पृष्ठभूमि के लोग हमारे यहाँ पढ़ाई करे – यहीं वह चीज है जिसके कारण ऑक्सफोर्ड अध्ययन के लिए दुनिया के सबसे रोमांचक जगहों में से एक बनती है।

## क्या यह मायने रखता है कि मेरा बच्चा/मेरी बच्ची कहाँ पढ़ने जाता/जाती है?

हम हमेशा से अध्ययन के लिए श्रेष्ठ प्रतिभा वाले स्टूडेंट्स की तलाश में रहते हैं, चाहे वे कसी भी पृष्ठभूमि के हों। हम समझते हैं कि किंठु स्टूडेंट्स के लिए अपनी परस्थितियों के कारण उच्चतम ग्रेड पाना अधिक मुश्किल होता है। इसलिए हम आवेदन पर बचाव करते समय ढै सारी जानकारी देखते हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स की उपलब्धता उनके व्यक्तिगत अनुभव के संदर्भ में समझें। हम ऐसा कैसे करते हैं इस बारे में आप और अधिक यहाँ पढ़ सकते हैं: [ox.ac.uk/context](http://ox.ac.uk/context).

“  
मैं बहुत खुश हूँ कि  
मैं कृतिना फति होऊँगी  
इस बारे में मेरा अवशिष्वास  
मुझे आवेदन करने से नहीं रोक  
पाया क्योंकि यह मेरे जीवन के  
सबसे बढ़िया सालों में से एक  
रहा है।  
क्रसिटी”



## ऑक्सफोर्ड कैसे बदल रहा है?

कुछ समूहों का प्रतनिधित्व अभी भी कम है, लेकिन यह बदल रहा है। यूनिवर्सिटी पहले से ही पूर्ख के मुकाबले अधिक अश्वेत और अल्पसंख्यक नस्ली स्टूडेंट्स को आकर्षित कर रहा है (हमारे 2019 अंडरग्रेजुएट एडमिशन का 22% से अधिक)।

2023 तक, हम लक्ष्य कर रहे हैं कि 25% ऑक्सफोर्ड अंडरग्रेजुएट्स अब यूके पृष्ठभूमियों के हो जनिका प्रतनिधित्व वरतमान में कम है। इसलाएं हम ऑपरचयनटी ऑक्सफोर्ड और फाउंडेशन ऑक्सफोर्ड, नामक दो नए रोमांचक पहुँच कारयक्रम शुरू कर रहे हैं। यूके स्टेट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हमारे UNIQ प्रोग्राम में भाग लेने से यहाँ अध्ययन करने के किसी के अवसर की पहले से ही बढ़ने की समावना है। **टार्णेट ऑक्सबर्जि** के साथ हमारे सहयोग का लक्ष्य अश्वेत अफ्रीकी और कैरेबियाई स्टूडेंट्स, तथा अश्वेत अफ्रीकी और कैरेबियाई परपरा वाले मरिशन्ट प्रजाति के स्टूडेंट्स को ऑक्सफोर्ड के लिए मजबूत आवेदन करने में सहायता करना है।

इन कारयक्रमों के साथ-साथ, हम सरकारी सकूलों और समुदायों के साथ हर साल और पूरे देश में हजारों पहुँच गतविधियाँ आयोजित करते हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी और कहीं भी यह पता लगा ले कि ऑक्सफोर्ड में स्टूडेंट जीवन कैसा होता है और कैसे आवेदन करें। यह सब पहले से ही बड़ा प्रक्रक ला रहा है और हमारे स्टूडेंट्स अधिक से अधिक अलग-अलग पृष्ठभूमियों से आ रहे हैं।

अफ्रीकी कैरेबियाई सोसायटी ने मुझे अलग-अलग पृष्ठभूमियों वाले देर सारे प्रेरणादायी स्टूडेंट्स से मिलने का मौका दिया फीनाक्स

20% ऑक्सफोर्ड अंडरग्रेजुएट्स ने अक्षमता घोषित की है।



19% ऑक्सफोर्ड अंडरग्रेजुएट्स को पहचान अश्वेत या अल्पसंख्यक नस्ली की है।

# वे कैसे आवेदन करें? यह समझना कहम क्या खोज रहे ह



ऑक्सफोर्ड में जगह पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बलिकुल हाल में, 23,000 से अधिक लोगों ने लगभग 3,250 जगहों से आवेदन किया। इसलिए ऑक्सफोर्ड के लाए आवेदन करने की प्रक्रिया अधिकतर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले थोड़ा जटिल है। हम ऐसे स्टूडेंट्स खोजना चाहते हैं जो ऑक्सफोर्ड द्वारा आफ़र की जा रही चीजों का अधिकतम लाभ उठा पाएँगे, और जो यहाँ खुश रहेंगे और फले फूलेंगे।

## ऑक्सफोर्ड के लाए आवेदन करना कैसे अलग है?

कसिं भी यूके यूनिवर्सिटी के लाए आवेदन करने में पलानगि करनी की जरूरत पड़ती है लेकिन ऑक्सफोर्ड में आवेदन करने के लाए कुछ और चरण की आवश्यकता होती है:

- ऑक्सफोर्ड के आवेदन अक्तुबर में देय होते हैं, जबकि अन्य बहुतों के जनवरी में होते हैं।
- आपका बच्चा/आपकी बच्ची UCAS के माध्यम से आवेदन करेगा/करेगी, कसिं भी दूसरे यूके यूनिवर्सिटी की तरह।
- ऑक्सफोर्ड आवेदनों में अकसर प्रवेश परीक्षा शामिल होती है। स्टूडेंट्स को यह देखना होता है कि उन्हें परीक्षा देने की जरूरत है या नहीं, समयसीमा तक उसके लाए पंजीकृत करने और [ox.ac.uk/tests](http://ox.ac.uk/tests) पर ऑनलाइन नमूना प्रश्नों का उपयोग करके अभ्यास करने की जरूरत है।
- हमारे कुछ कोर्सों के लाए स्टूडेंट्स को लखिति कार्य जमा करने की जरूरत पड़ती है। आपका बच्चा/आपकी बच्ची यह पता लगा सकता/सकती है कि उसे यह सब हमारी वेबसाइट पर करना है या नहीं।
- छाँटे गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू देने के लाए दसिंबर में ऑक्सफोर्ड आने के लाए कहा जाएगा। यह समावति ट्यूटर के साथ अकादमिक बातचीत होती है।

ये सारे चरण हमें उन सबसे प्रतिभिशाली उम्मीदवारों का पता लगाने में मदद करते हैं जो यहाँ के स्टूडेंट्स के पढ़ाई करने के तरीके का गाकई आनंद लेगे।

## मैं अपने बच्चे/बच्ची को सख्तरेष्ठ आवेदन करने में कैसे मदद कर सकता/सकती हूँ?

- शीर्ष स्कूल ग्रेड्स महत्वपूर्ण होते हैं इसलिए अपने बच्चे/बच्ची को स्कूल में उन विषयों को पढ़ने के लाए प्रोत्साहित करें जिन्हें पढ़ने में उन्हें मजा आता है और जिनमें उनका अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है।
- आपके बच्चे/बच्ची को वह विषय चुन लेना चाहिए जसि आगे तीन या चार साल पढ़ने में उसे आनंद मिलिए। ध्यानपूर्वक सोच-विचार करने, और उन विषयों पर विचार करने के लाए प्रोत्साहित करना जिन्हें उन्होंने पहले नहीं पढ़ा हो।
- उन्हें सलाह दें कि वे अपना UCAS आवेदन की प्रक्रिया गर्मी के दौरान शुरू कर लें – नज़ी कथन का अपेक्षा से अधिक समय लेने की संभावना होती है!
- यदिनके कोर्स में प्रवेश परीक्षा शामिल होती है, तो सुनिश्चित करें कि वे **15 अक्तुबर** की समय सीमा से पहले उसके लाए पंजीकृत कर ले। उन परीक्षाओं के लाए अभ्यास करने वाले स्टूडेंट्स की बेहतर करने की संभावना होती है, इसलिए अपने बच्चे/बच्ची को हमारी सलाह पढ़ने और हमारी वेबसाइट में दृष्टि गए परीक्षा पत्रों पर अभ्यास करने के लाए प्रोत्साहित करें।

आवेदन की समय सीमा:  
**15 अक्तुबर शाम 6 बजे**

आपके बच्चे/बच्ची को जो भी चीज जाने की जरूरत है वह सबकुछ हमारी वेबसाइट में आवेदकों के लाए गाइड में पाई जा सकती है। यदिनके पास फरि भी प्रश्न हों, तो वे यहाँ हमसे संपर्क कर सकते हैं:  
[ox.ac.uk/ask](http://ox.ac.uk/ask).

# हम और क्या पता लगा सकते हैं? आपकी मदद करने वाले कार्यक्रम और ऑनलाइन जानकारी

हम जानते हैं कि आपके बच्चे/बच्ची के लिए यह निःरिणय लेना मुश्किल हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी में आवेदन करें, और क्या कहाँ सबसे ज़्यादा खुश रहेंगे। ऑक्सफोर्ड में आवेदन करने के बारे में उन्हें अधिक आत्मविशिष्टासी महसूस करने में मदद के लिए, हम ऑक्सफोर्ड और यूके में चारों तरफ हर साल हजारों मुफ़्त कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आप कार्यक्रमों के बारे में, और परविरागों के लिए उपलब्ध संसाधनों के बारे में सारी जानकारी हमारी वेबसाइट [ox.ac.uk/study](http://ox.ac.uk/study) पर पा सकते हैं।

## क्या ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें हम भाग ले सकते हैं?

- ऑक्सफोर्ड हर साल तीन यूनिवर्सिटी व्यापी ओपन डेंज़ आयोजित करता है। यह सट्टौर्ट जीवन के बारे में और अधिक पता लगाने, कॉलेज और विभिन्नों का चक्कर लगाने, और वर्तमान सट्टौर्ट्स और ट्रायूट्स से मिलने का एक शानदार तरीका है।

### [ox.ac.uk/opendays](http://ox.ac.uk/opendays)

- हमारे कई विषयों के विभिन्न स्वयं अपने भी ओपन डेंज़ आयोजित करते हैं।

### [ox.ac.uk/access](http://ox.ac.uk/access)

- यदि आपका बच्चा/आपकी बच्ची ऑक्सफोर्ड नहीं जा पा रही/रही हो, तो वह ऑक्सफोर्ड और कैब्रिज़ सट्टौर्ट कॉन्फरेंस में भाग ले सकता/सकती है। ये 'ट्रैवलग्ज़ ओपन डेंज़' पूरे देश में आयोजित होते हैं।

### [oxfordandcambridgeoutreach.co.uk](http://oxfordandcambridgeoutreach.co.uk)

## उन कार्यक्रमों के बारे में क्या जिनमें वे ऑक्सफोर्ड में रह सकते हैं?

- UNIQ के बारे में और पता लगाएँ, जो यूके सरकारी स्कूलों के वर्ष 12 के सट्टौर्ट्स के लिए हमारा मुफ़्त कार्यक्रम है।

### [uniq.ox.ac.uk](http://uniq.ox.ac.uk)

- ट्रैयोट ऑक्सब्रिज़ के बारे में और पता लगाएँ, यदि वह अश्वेत या मरिंग्टन नस्ल का है और अफ्रीकी और कैलेबियाई परंपरा से है।

### [targettoxbridge.co.uk](http://targettoxbridge.co.uk)

## क्या ऑनलाइन जगह हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं?

- Instagram पर [@StudyAtOxford](#) को फॉलो करें
- आपके बच्चे/बच्ची की स्कूल से यूनिवर्सिटी जाने की कार्यवाही का समर्थन के लिए [ox.ac.uk/forfamilies](http://ox.ac.uk/forfamilies) पर और अधिक सलाह पढ़ें।



## क्या मेरे क्षेत्र के लिए कुछ ख़ास है?

यूके के हर स्कूल और कॉलेज का यूनिवर्सिटी में एक ख़ास संपर्क होता है। ऑक्सफोर्ड कॉलेजों का समूह देरा के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ने के लिए, और स्थानीय ज़रूरतों के लिए उपयुक्त सहायता प्रदान करने के लिए मिलकर काम करता है। इसका अर्थ है, आपका बच्चा/आपकी बच्ची कहीं भी रहता/रहती हो, वह यूनिवर्सिटी में आवेदन करने संबंधी सहायता और जानकारी तक पहुँच सकता/सकती है।

### [ox.ac.uk/linkcolls](http://ox.ac.uk/linkcolls)

# हम उनकी दलिचस्पी कैसे बनाए रख सकते हैं?

## उनकी उत्सुकता को पूरा करते रहना

हम जानते हैं कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में उत्सुकता के साथ पैदा होते हैं, और वे इसी तरह से सीखते हैं। हमारी उत्सुकता बहुत बड़ी परतभिं है। हमें पक्का पता है कि आप अंतहीन प्रश्न वाले बच्चों को जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि टीचर्स कई अलग-अलग जरूरतों वाले अनेक बच्चों की मदद करते-करते बहुत व्यस्त होते हैं, और कभी-कभी प्रतिशाली बच्चे स्कूल में बोर हो जाते हैं। तो, आप अपने परविर के भूखे दमिगों की भूख मटिने में कैसे मदद कर सकते हैं?

सबसे पहले, यह मत सोचें कि आपके पास सब उत्तर होना चाहए! बस बच्चों को दलिचस्प लगाने वाली चीजों के बारे में बात करने से वाकई मदद मिल सकती है, और उनके लिए यह अच्छा हो सकता है कि उन्हें लगे कि वे विशेषज्ञ हैं। इसके फलस्वरूप और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसका यह भी अर्थ होगा कि वे सोचना जारी रखेंगे। आप यह भी सलाह दें सकते हैं कि वे और जानकारी कहाँ पा सकते हैं – केवल कतिबों नहीं। यदि उनकी दलिचस्पी केवल एक ही चीज में हो तो चातिति न हों – कम चीजों के बारे में बहुत जानना, बजाय बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत कम जानना सीखने का बस एक तरीका है। महत्वपूर्ण यह है कि वे सीखने को प्यार करना जारी रखते हैं।

### भूखे दमिगों के लिए कुछ आइडिया यहाँ बताए गए हैं:

#### 16 वर्ष से कम

- Oxplore को आजमाएँ, 11-18 वर्ष के बच्चों के लिए उन कुछ बड़े प्रश्नों के बारे में पता लगाने वाली हमारी मुफ्त शैक्षणिक वेबसाइट जो हमें पता है कि उन बच्चों को पसंद है।

#### oxplore.org

- साथ मिलाकर छानबीन करें: टीवी पर, कतिबों, पत्रकाओं में, और ऑनलाइन।
- उनके पसंदीदा विषय वाले YouTube वीडियो खोजें।
- ऑक्सफोर्ड के कुछ नवीनतम खोजों के बारे में वीडियो [ox.ac.uk/reading](http://ox.ac.uk/reading) पर देखें।
- स्थानीय म्यूज़ियम के कार्यक्रमों में जाएँ: ये अक्सर मुफ्त होते हैं।
- अपने कृषेत्र में हॉलिडे परोगरामों के बारे में पता लगाएँ, कुछ मुफ्त होते हैं और स्थानीय काउंसल द्वारा वातित पोषित होते हैं।
- उनके साथ नए अनुभवों के बारे में बातें करें।

#### 16 वर्ष से अधिक

- MOOCs (विशिल मुक्त और ऑनलाइन कोर्सेस), अन्य ऑनलाइन कोर्सेस और लेक्चरस की छानबीन करें।  
[www.mooc.org](http://www.mooc.org)  
[www.edx.org](http://www.edx.org)
- उन्हें ऑनलाइन पत्रकाएँ देखने के लिए प्रोत्साहित करें।
- उनकी दलिचस्पी वाले विषयों पर कुछ Ted Talks देखें।  
[www.ted.com/talks](http://www.ted.com/talks)
- HuffPost देखें, एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर जिसमें बहुत सारे युवा लेखक हैं।  
[www.huffingtonpost.co.uk](http://www.huffingtonpost.co.uk)





